




भारत सरकार / Govt of India
रक्षा मंत्रालय / Min of Defence
रक्षा लेखा नियंत्रक, नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद 009 -
Controller of Defence Accounts
No.1, Staff Road, Secunderabad - 09
(ई-मेल/email: secd-acsn-cda@nic.in)
(वेब साइट /website : cdasecbad.ap.nic.in)
दूरभाष/Tel: 040-27843385/Ext-213 फैक्स/Fax: 040-27810499



सं./No. A/II/13004/17/02/Corr

दिनांक/date : 22/12/2023

सेवामें / To,

01. सभी उप-कार्यालय / All Sub Offices,
सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, सुर्यलंका और एदिलारम / Secunderabad /Visakhapatnam/Suryalanka
02. सभी अनुभाग / All Sections
मुख्य कार्यालय / Main Office(स्थानीय / Local)

विषय /Sub Record of unclaimed Security Deposits and disposal thereof.

संदर्भ/ Ref : HQrslr No. AN/Grievance/Misc/SD/2023/E-3631 dated 18/12/2023.

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय पत्रकी एक प्रति जानकारी, मार्गदर्शन और सख्त अनुपालन के लिए इसके साथ अग्रेषित की जाती है

1. A copy of HQrs letter under reference is enclosed herewith which is self explanatory.
2. It is, therefore, directed that a review may be carried out in respect of the unclaimed security deposits and necessary action may be taken for liquidation/clearance of the said outstanding balances as the Hqrs office has adversely commented upon the issue.
3. Action taken report may be furnished to this office on or before 26/12/2023 so as to enable to this office for onward transmission to Hqrs office within the cutoff date fixed by Hqrs.

GO (Accounts) has seen.

संलग्न/ Encl: ऊपर उक्त अनुसार /as above

(सी.एच. वी. रामणामूर्ती/ CH. V. RAMANA MURTHY)
व. लेखा अधिकारी (लेखा)/Sr. Accounts Officer (A/Cs)

प्रतिलिपि / Copy to:-

SAO i/c, IT Section, LOCAL- with a request to upload this letter in CDA's website.

(सी.एच. वी. रामणामूर्ती/ CH. V. RAMANA MURTHY)
व. लेखा अधिकारी (लेखा)/Sr. Accounts Officer (A/Cs)

“हर काम देश के नाम”



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Controller General of Defence Accounts,

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

Phone:011-25665558, 25665745

Fax:25674806 / 25674821 email: cgda@defence.gov.in

शिकायत प्रकोष्ठ (Grievance Cell)

File No. AN/Grievance/Misc/SD/2023/e-3631

Date: 18/12/2023

To

All PCDA/ CDAs

(Through mail only)

20/12/23. 12:30 pm
SA SCS

रि. पुन्य

20/12/23

Subject:- Records of unclaimed Security Deposits and disposal thereof.

Reference:- This HQrs office letter No. AN/Grievance/Misc/ 2023/e-3631 dated 22.06.2023 & 31.07.2023.

In continuation of this section letter cited under references, it has been observed from the previous progress report that most of the PCDA/CDAs have not shown satisfactory progress on the subject issue.

2. Hence, it is once again requested to kindly submit the current status of progress report to this HQrs office by **28th December, 2023** positively through email only. **Hard copy of the report is not required.**

Your kind co-operation is highly solicited.

(Sushil Riyar, IDAS)
Sr. ACGDA (Admin)